



## अंतरिक्ष क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्नगि

### प्रलिस के लिये:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्नगि, गगनयान, NISAR, SPADEX पर्योग, भारतीय अंतरिक्ष सटेशन

### मेन्स के लिये:

वविधि अंतरिक्ष अनुपरयोगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्नगि की भूमिका, ISRO के भवषिय के परयास

स्रोत: पी.आई.बी

हाल ही में भारत सरकार ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI)** तथा **मशीन लर्नगि (ML)** को एकीकृत करने में **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला।

- यह परिवर्तन वगित कुछ वर्षों में इन क्षेत्रों में तेज़ी से हुई तकनीकी प्रगति के लिये एक रणनीतिक प्रतिक्रिया रही है।
- **गगनयान कार्यक्रम** सहित ISRO की चल रही परियोजनाओं में AI समाधान एकीकृत हैं।

## AI और ML वविधि अंतरिक्ष अनुपरयोगों में कैसे सहायता करते हैं?

- **अंतरिक्ष अन्वेषण और रोबोटिक्स:** AI-संचालित रोबोट तथा रोवर नरितर मानवीय हस्तक्षेप के बिना मार्गनिर्देशन कर सकते हैं, नरिणय ले सकते हैं एवं दूरवर्ती ग्रहों अथवा कषुद्रग्रहों का पता लगा सकते हैं।
  - ML, अंतरिक्ष जाँच अथवा उपग्रहों द्वारा ली गई छवियों में **आकाशीय पिंडों, कषेत्रों तथा खतरों की पहचान** करने में मदद करती है।
- **उपग्रह संचालन:** ML एल्गोरदिम द्वारा **उपग्रह छवियों का वशिलेषण** किया जाता है जिससे **पृथ्वी की सतह में परिवर्तन**, मौसम के पैटर्न तथा पर्यावरणीय परिवर्तनों की **नगरानी करने में सहायता** मिलती है।
  - AI, **टेलीमेटरी डेटा का वशिलेषण** करके रखरखाव शेड्यूलगि को बेहतर करता है तथा डाउनटाइम को कम करता है जिससे उपग्रह घटक की वफिलताओं का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।
- **अंतरिक्ष यान प्रणाली:** AI ससिस्टम अंतरिक्ष यान घटकों के **संचालन की नगरानी** करते हैं, संभावति वफिलताओं पूर्वानुमान करते हैं तथा रखरखाव में सक्रिय रूप से सहायता करते हैं।
  - **ML एल्गोरदिम** मशिन के दौरान अंतरिक्ष यान **संचालन के लिये बजिली, ईधन तथा अन्य संसाधनों का अनुकूलन** करते हैं।
- **डेटा वशिलेषण तथा पैटर्न पहचान:** AI नए खगोलीय पिंडों की खोज करने, अंतरिक्ष परघटनाओं को समझने तथा अंतरिक्ष में मलबे की पहचान करने के लिये व्यापक रूप से खगोलीय डेटा का वशिलेषण करता है।
  - ML, गहरे अंतरिक्ष (Deep Space) से संकेतों को संसाधति कर, **शोर तथा संभावति संचार अथवा वैज्ञानिक डेटा के बीच अंतर करने में मदद करता है।**
- **मशिन योजना तथा नरिणय:** AI मॉडल वभिन्नि कारकों तथा परदृश्यों की मदद से **नरिणय लेने की प्रक्रियाओं में सहायता** करते हुए जोखमिपूर्ण मशिनों का आकलन करते हैं।
  - ML, अंतरिक्ष यान को वास्तविक समय में बदलते परविश अथवा अप्रत्याशाति स्थितियों के अनुकूल बनाने में सकषम बनाता है।
- **ऑप्टिकल संचार अनुकूलन:** **AI तथा ML** डेटा ट्रांसमशिन गति को अधिकितम करते हैं तथा मॉडल ऑप्टिकल संचार प्रणालियों को परषिकृत करते हैं, जिससे बदलती अंतरिक्ष स्थितियों के अनुकूलन में सहायता मिलती है जो अंतरग्रहीय मशिनों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **अंतरिक्ष चुनौतियों के लिये क्वांटम कंप्यूटगि:** AI में उच्च-स्तरीय एन्क्रिप्शन या जटलि समिलेशन की आवश्यकता वाले अंतरिक्ष मशिनों के लिये सुरक्षा और कंप्यूटेशनल क्षमताओं को बढ़ाने वाली जटलि गणनाओं तथा क्वांटमग्राफी से नपिटने के लिये **क्वांटम कंप्यूटगि का उपयोग करने की क्षमता है।**

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्नगि (ML) के क्षेत्र में चल रही परियोजनाएँ:

## ■ AI और ML परियोजनाएँ :

- **अंतरिक्ष वभिन्न** द्वारा AI और ML के क्षेत्र में वभिन्न परियोजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो व्यवहार्यता अध्ययन व कार्यान्वयन के वभिन्न चरणों में हैं। इनमें प्रमुख हैं:
  - **प्रक्षेपण यान व अंतरिक्ष यान मशिन** प्रक्षेपक डज़ाइन और स्वायत्त संचालन;
  - **प्रक्षेपण यान और उपग्रहों के स्वास्थ्य की नगिरानी** तथा टेलीमेटरी डेटा से भविष्यवाणी;
  - संसाधन मानचित्रण, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्वानुमान, **भू-बुद्धिमत्ता (वस्तु और परिवर्तन का पता लगाना)**, सटीक कृषि, कृषिवानिकी आदि के लिये सैटेलाइट डेटा प्रोसेसिंग।
  - **हयूमनॉइड रोबोट और चैटबॉट्स**
  - **अंतरिक्ष रोबोटिक्स** तथा अंतरिक्ष में स्मार्ट वनिरिमाण।

## ■ इसरो के भविष्य के प्रयास:

- **चंद्रयान-4 मशिन:** इसरो द्वारा चार साल के भीतर चंद्रमा से नमूने वापस लाने की योजना बनाई गई है।
- **भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन:** रोबोट के साथ प्रयोग करने में सक्षम पहला मॉड्यूल वर्ष 2028 तक लॉन्च होगा।
- **SPADEX का प्रयोग:** दो अंतरिक्षयानों के बीच स्वायत्त डॉकिंग क्षमता का प्रदर्शन करता है।
  - इसमें जुड़े हुए उपग्रहों को लॉन्च करना शामिल है जो अलग दूरी तय करते हैं और फिर से जुड़ जाते हैं।
- **नसिर (NISAR):** NASA-ISRO SAR (NISAR) एक नमिन पृथ्वी कक्षा (LEO) वेधशाला है जिसे नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है।
- **गगनयान:** गगनयान मशिन का उद्देश्य मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। मशिन में दो मानवरहति उड़ानें और एक मानवयुक्त उड़ान शामिल होगी, जिसमें जीएसएलवी एमके-III लॉन्च वाहन तथा एक मानव-रेटेड कक्षीय मॉड्यूल का उपयोग किया जाएगा।

**नोट:** सरकार ने कहा कवित्त वर्ष 2023-24 के पछिले 9 महीनों के दौरान देश के भीतर अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप ने 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का नजी नविश हासिल किया है।

## अंतरिक्ष क्षेत्र में AI और ML से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **कंप्यूटेशनल सीमाएँ:** अंतरिक्ष यान में सीमिति कंप्यूटेशनल शक्ति और मेमोरी होती है, जिससे जटिल AI एल्गोरिदम को चलाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इन संसाधन-बाधति वातावरणों में कुशलतापूर्वक चलाने के लिए ML मॉडल को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
- **सुदृढ़ता एवं विश्वसनीयता:** अंतरिक्ष का वातावरण कठोर है, जिसमें उच्च स्तर का विकिरण और अत्यधिक तापमान है, जो AI सिस्टम के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर घटकों को प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थितियों में AI एल्गोरिदम की विश्वसनीयता और मज़बूती सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
- **प्रशिक्षण डेटा सीमाएँ:** पछिले मशिनों या स्थितियों से सीखने की सीमिति संख्या के कारण अंतरिक्ष मशिनों के लिये विशिष्ट AI मॉडल हेतु प्रशिक्षण डेटा एकत्र करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **नैतिक और कानूनी वचिार:** जैसे-जैसे अंतरिक्ष मशिनों में AI अधिक प्रचलित होता जा रहा है, वैसे ही नैतिक और कानूनी चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं, जैसे- AI नरिण्यों की ज़िम्मेदारी, डेटा गोपनीयता तथा AI-संचालित नरिण्यों तथा मानव नरिण्य के बीच संभावित संघर्ष।

## आगे की राह

- **एज कंप्यूटिंग और ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग:** डेटा ट्रांसमिशन देरी को कम करने और अर्थ-बेसड कमप्यूटेशनल संसाधनों पर नरिभरता को कम करने के लिये ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग तथा एज कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करें।
  - यह अंतरिक्ष यान को डेटा संसाधति करने और स्वायत्त रूप से नरिण्य लेने की अनुमति देता है, जिससे पृथ्वी के साथ नरितर संचार पर नरिभरता कम हो जाती है।
- **अंतःवधि सहयोग:** खगोल वजिज्ञान, कंप्यूटर वजिज्ञान, सामग्री वजिज्ञान और रोबोटिक्स जैसे वभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता को संयोजित करने के लिये अंतरिक्ष एजेंसियों, शोधकर्ताओं तथा उद्योगों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें।
  - यह अंतःवधि दृष्टिकोण नवाचार और व्यापक समस्या-समाधान को बढ़ावा देता है।
- **नैतिक ढाँचे और शासन:** अंतरिक्ष में AI और ML के लिये विशिष्ट वैश्विक नैतिक ढाँचे तथा शासन दिशा-नरिदेश विकसित करना जो AI नरिण्य लेने, जवाबदेही, डेटा गोपनीयता एवं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों के पालन जैसे मुद्दों को संबोधित करते हैं।

## सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:**

**नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2016)**

1. इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मंगलयान-
2. इसे मारस ऑर्बिटर मशिन भी कहा जाता है।
3. संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत मंगल ग्रह की परकिरमा करने वाला दूसरा देश बन गया है।
4. भारत अपने पहले ही प्रयास में स्वयं के अंतरिक्षयान द्वारा मंगल ग्रह की परकिरमा करने में सफल एकमात्र देश बन गया है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: C

**??????:**

परश्न1. भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की क्या योजना है और इससे हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्या लाभ होगा? (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/artificial-intelligence-and-machine-learning-in-space-sector>

